

\*प्रेस विज्ञप्ति\*

\*जनपद मुरादाबाद\*



\*दिनांक:-06-01-2023\*

**\*1-सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने के 02 आरोपी गिरफ्तार, थाना कांठ:-\***

अवगत कराना है दिनांक 05-01-2023 को उ0नि0 श्री मदन पाल सिंह राणा थाना कांठ द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्तगण 1-सुनील पुत्र रामपाल 2-सुरेन्द्र पुत्र हरपाल सिंह निवासीगण ग्राम मुखत्यारपुर नवादा थाना कांठ, मुरादाबाद को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 52 ताश के पत्ते व कुल 490 रुपये बरामद किये गये। इस संबंध में थाना कांठ पर मु0अ0सं0- 08/2023 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया।

**\*2-अवैध कच्ची शराब के साथ 03 गिरफ्तार, थाना कांठ:-\***

अवगत कराना है दिनांक 05/06-01-2023 को उ0नि0 श्री मदनपाल सिंह राणा व उ0नि0 श्री प्रवेन्द्र सिंह थाना कांठ द्वारा मय हमराही पुलिस बल के क्रमशः अभियुक्तगण 1-मौ0 सुहेल पुत्र हाजी इदरीश 2-जावेद हुसैन पुत्र जाकिर हुसैन निवासीगण मौ0 शेखान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ, 3-धीरज पुत्र मंगु सिंह निवासी ग्राम मिश्री बेगमपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कांठ पर क्रमशः मु0अ0सं0-09/2023 व मु0अ0सं0 11/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किये गये।

**\*3-घर में घुसकर चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना पाकबड़ा:-\***

अवगत कराना है कि दिनांक 05-01-2023 को वादी अकबर अली पुत्र साबिर निवासी माता वाली मिलक कस्बा व थाना पाकबड़ा, मुरादाबाद ने अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर में घुसकर पानी की टोटी, तांबे का पाईप व अन्य सामान चोरी करने के संबंध में थाना पाकबड़ा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना पाकबड़ा पर मु0अ0सं0-03/2023 धारा- 380 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 06-01-2023 को उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना पाकबड़ा द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त कासिम पुत्र वकील उर्फ सलीम अंसारी निवासी मकान न0 70 सी ब्लॉक सेक्टर 13 मंगूपुरा थाना मझोला, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भा0द0वि0 की वृद्धि की गयी।

**\*4-सट्टे की खाईबाड़ी करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना मैनाठेर:-\***

अवगत कराना है कि दिनांक 05-01-2023 को व0उ0नि0 श्री पवन कुमार शर्मा थाना मैनाठेर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त छिदा पुत्र मुख्वा निवासी गुेरर निकट जामा मस्जिद थाना मैनाठेर, मुरादाबाद को सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक पर्चा सट्टा, 880 रुपये नगद व दो मोबाइल फोन बरामद किये गये। इस संबंध में थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0-06/2023 धारा 13 जी0 अधि0 (सट्टा) पंजीकृत किया गया।

**\*5-तमंचा व कारतूस के साथ 01 गिरफ्तार, थाना सिविल लाईन्स:-\***

अवगत कराना है कि आज दिनांक 06-01-2023 को उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना सिविल लाईन्स द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त कासिम पुत्र हनीफ निवासी गुलाब बाग हरथला थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद को एक अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना सिविल लाईन्स पर मु0अ0सं0-14/2023 धारा- 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

**\*6-नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना ठाकुरद्वारा:-\***

अवगत कराना है कि दिनांक 05-01-2023 को वादिनी निवासी थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0-12/2023 धारा- 376/506/323/324 भा0द0वि0 व धारा 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 06-01-2023 को निरीक्षक श्री नितिन कुमार थाना ठाकुरद्वारा द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त अंकुश पुत्र वचन सिंह निवासी ग्राम लाँगी खुर्द थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।